

Date: 22.11.2022

To
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

(INTECCAP | 526871 | INE017E01018)

Subject: Newspaper Advertisement

Reference: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Further to our letter dated 21st November, 2022, we enclose a copy each of the advertisements published on Tuesday, 22nd November, 2022 in the "Financial Express" (English) and the "Hari Bhoomi" (Hindi) newspapers respectively pursuant to the relevant provisions of the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 relating to the Notice of Postal Ballot & E-Voting.

The same has been made available on the Company's website www.inteccapital.com.

We request you to kindly take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Intec Capital Limited


(Sanjeev Goel)
Managing Director
DIN: 00028702



INTEC CAPITAL LTD.

CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110019. T +91-11-4652 2200/300 F +91-11-4652 2333

www.inteccapital.com

HDFC BANK Department For Special Operations - 5th Floor, Plot No. 1, Ansal Classique Tower, Block B/3, Rajouri Garden, New Delhi-110027

Notice Recalling E-Auction Notice dated 09.11.2022 for Sale of Immovable Assets under SARFAESI Act

Notice is hereby given to the general public and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) recalling/cancelling the Auction Sale of the immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor/borrower Flat No. D-878, 1st Floor, New Friends Colony, New Delhi-110044 scheduled for 24.11.2022 since the Borrower has initiated against the moratorium under Section 96 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against the mortgagor/guarantor in IB-620/ND/2022 titled "State Bank of India vs. Girish Bhatia" pending adjudication before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Court-V, New Delhi. Consequently, the EMDs received by the Secured Creditor will be returned.

Date: 21.11.2022. Place: New Delhi Authorised Officer, HDFC Bank Ltd.

ANKA INDIA LIMITED

Regd. Off: 41 Shivalik Building Near Saraswati Hospital/ Telephone Exchange Old Delhi Road Gurgaon-122001

CIN: L74900HR1994PLC033268; Email id: response@ankaindia.com
Phone no: 9820069933; website: www.ankaindia.com

Corrigendum to Notice of the Extra Ordinary General Meeting

Anka India Limited had issued Notice dated November 02, 2022 for convening the Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the Shareholders of the Company, scheduled to be held on Thursday, December 01, 2022 through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM). The EGM Notice has already been circulated to all the Shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder.

In the explanatory statement to Item No. 2 point-e on Page No. 20 of the Notice shall be read as under:

"Since the equity shares of the Company are listed and are frequently traded, the issue price shall be an amount not less than the minimum price determined as on the Relevant Date in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, and other applicable laws. Since it is proposed to issue more than 5% of the fully diluted post issue capital to all allottees, in accordance with Regulation 166A(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, a Report from Mr Anil Rustgi, a IBI registered valuer with Registration Number: IBB/RV/052019/12313 dated November 01, 2022 has also been taken and the issue price is more than the price arrived at in the Valuation Report. The valuation report is available in our website www.ankaindia.com. We also confirm that the Articles of Association do not contain any restrictive provision."

The Corrigendum to the EGM Notice shall form integral part of Notice dated November 02, 2022, which has already been circulated to the Shareholders and Stock Exchanges of the Company. The Corrigendum will be available on the website of the Company (www.ankaindia.com) besides being communicated to NSE and BSE where the shares of the Company are listed.

FOR ANKA INDIA LTD
Sd/-
RAMAN TRIKA
WHOLE TIME DIRECTOR

Bank of Baroda

SCOPE COMPLEX BRANCH CORE-6, GROUND FLOOR, SCOPE COMPLEX 7 LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

POSSESSION NOTICE
(Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda, Scope Complex Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 30.07.2022, Calling upon the Borrower: **M/S SKYLARK METALLIC INDIA**, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.2,78,99,404.49 (Rupees Two Crore Seventy Eight Lakh Ninety Nine Thousand Four Hundred Forty and Forty Nine Paise Only)** as on 26.07.2022 together with further interest from 27.07.2022 thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 on this 19th Day of November of the Year 2022. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Scope Complex Branch, for an amount of **Rs.2,78,99,404.49 (Rupees Two Crore Seventy Eight Lakh Ninety Nine Thousand Four Hundred Forty and Forty Nine Paise Only)** as on 26.07.2022 together with further interest from 27.07.2022 thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Property No.274, Entire Ground Floor, measuring Area - 200.05 Square Yards, Bahera Enclave, Situated at Paschim Vihar, New Delhi-110087. Bounded:
North: Property No.273
East: Service Lane
West: 9 Mtr. Wide Road
Date: 19.11.2022 Place: New Delhi Authorised Officer, Bank of Baroda

intec
Intec Capital Limited
CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off.: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019
T.: +91-11-46522200/300; F.: +91-11-46522333
Website: www.intecapital.com

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given in accordance with the provisions of Sections 110 and 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Management Rules") as amended, Secretarial Standard-2 on General Meetings (the "SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations") including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA"), Government of India, for holding general meetings vide General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated, 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, 20/2021 dated 8th December, 2021 and 3/2022 dated 5th May, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars") in view of COVID-19 pandemic and any other applicable laws and regulations for seeking approval of Members of Intec Capital Limited (the "Company") through Postal Ballot by way of voting through electronic means ("e-voting").

The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website <http://www.intecapital.com> and the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com. These details are also available on the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com), in terms of the MCA and SEBI Circulars, the Notice has been sent through electronic mode only to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") i.e., Beetal Financial and Computer Services Private Limited. The electronic dispatch of the Notice has been completed on 21st November, 2022. The Notice inter alia indicating the process and manner of remote e-voting is also available on the Company's website www.intecapital.com, on the website of Stock Exchanges i.e., BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and SS-2 issued by the ICSI, the Company is pleased to provide electronic voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com to enable its Members to cast their vote by electronic means in respect of the business proposed to be transacted. The details pursuant to the Act read with the Rules, SS-2 and MCA Circulars are as under:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 18th November, 2022 ("the Cut-off Date") only shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat the Notice for information purposes only.
- Manner of casting vote through e-voting: Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice through e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be available to the Members through email. The detailed procedure for casting the votes through e-voting is provided in the Notice. The details are also made available on the website of the Company.
- The remote e-voting period will commence on Wednesday, 23 November, 2022 at 09:00 a.m. (IST) and end on Thursday, 22 December, 2022 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting system shall be disabled for voting thereafter by CDSL and voting shall not be allowed.
- Once the vote on a resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- All the Members of the Company as on the Cut-off Date (including those Members who may not have received the Notice due to non-registration of their e-mail addresses with the Company/RTA/Depositories) shall be entitled to vote in relation to the proposed business in accordance with the process specified in the Notice.
- Mr. Priyank Kulkarni (ICSI Membership COP - 19465, AC No. A40585) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process, in a fair and transparent manner.
- The results of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, 24 December, 2022. The said results along with the Scrutinizer's Report would be uploaded on the website of the Company www.intecapital.com and also would be communicated to the Stock Exchange at www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office of the Company.
- If you have any queries or issues regarding e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dahi (022-23058542).

By the order of the Board
For Intec Capital Limited
Sd/-
Sanjeev Goel
Managing Director
DIN: 00028702

Date: 21st November, 2022
Place: New Delhi

Canara Bank POSSESSION NOTICE (For Movable/Immovable Properties)

REGINOL OFFICE : KUSUMKHERA, HALDWANI, DISTT. NAINITAL, UTTARAKHAND

Whereas: The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the Act") and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrower to repay the amount mentioned in the notice, with further interest and incidental expenses and costs within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13(4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said rule as per the details given below. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount along with interest mentioned below. **The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**

Name of Branch Name & Address of Borrower/Guarantor/Mortgagor	Date of Demand & Possession Notice	Outstanding Amt. as per Demand Notice	Description of Movable/ Immoveable Properties
BRANCH : BAZPUR II M/s Preet Jewellers (Proprietorship Firm) , Seria Road, Navy Sadak, Bajpur, U S Nagar-262401, Shri Manpreet Singh (Proprietor/Mortgagor/Borrower) S/o Shri Balvinder Singh R/o Ward No. 8, Subash Nagar, Bazpur, U S Nagar-262401, Shri Gurpreet Singh (Co Mortgagor) S/o Shri Balvinder Singh R/o Ward No. 8, Subash Nagar, Bazpur, U S Nagar-262401 & Shri Pavan Kumar Sharma (Guarantor) S/o Ram Pal Sharma, Ward No. 2, Subash Nagar, Bajpur, U S Nagar 262401	31/08/2022 Date of Possession 16/11/2022	Rs. 13,28,486.64/- (Rupees Thirteen Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundred Eighty Six & Sixty four Paise Only)	Residential Land & Building in the name of Shri Gurpreet Singh & Manpreet Singh S/o Balvinder Singh situated at Village Mundiya Pistaar, Bajpur, Dist U S Nagar bearing Kharsa No. 13/1 Min measuring 1400 square feet or 130.11 square meter. East: House of Avtar Singh West: The Land of Ramnarayan etc. North: The Land of Banarasi Das South: Rasta
BRANCH: KASHIPUR I 1. Mr. Vishal Bhardwaj S/o Late Harish Chandra, R/o Mohalla Thana Sabik, Kashipur, District U.S Nagar, Uttarakhand. (Borrower/Mortgagor), 2. Mr. Ravi Bhardwaj S/O Late Harish Chandra, R/O Mohalla Thana Sabik, Kashipur, District U.S Nagar, Uttarakhand. (Borrower/Mortgagor), 3. Mr. Rohit Bhardwaj (Vicky) S/O Late Harish Chandra, R/O Mohalla Thana Sabik Kashipur, District U.S Nagar, Uttarakhand. (Borrower/Mortgagor) & 4. Mrs. Kamlesh Sharma W/O Vinod Kumar, R/O Mohalla Thana Sabik, Kashipur, District U.S Nagar, Uttarakhand. (Guarantor)	14/07/2022 Date of Possession 17/11/2022	Rs. 5,88,631.23/- (Rupees Five Lakh Eighty Eight Thousand Six Hundred Thirty One & Twenty Three Paise Only)	Residential House No. 167 in the Name of Vishal Ravi & Rohit Bhardwaj having extent of site 96.65 sq. meter situated at Mohalla Thanasabik, Kashipur, Tehsil Kashipur, District- U.S Nagar. Boundaries: North: Path of Nagarpalika. South: House of Mr. Amreek Kharbanda. East : Land & then House of Mrs Seeta Narula. West: Path of Nagarpalika.

Date : 22-11-2022 **Place : Haldwani** **Authorised Officer**

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infinitum Housing Finance Ltd) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the Company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer of the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues(Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Yashpal Uppal Mrs. Meenu Uppal Yashpal Uppal (Prospect No 946936 & 947457)	All that piece and parcel of : Plot No-13, admeasuring 900 Sq. Ft., property out of Mustali No. 64 Kila No. 22, Situated in Block K, Village Pota Kalan, colony known as Budh Vihar, Delhi, 110086	Rs.69,89,946/- (Rupees Sixty Nine Lakh Eighty Nine Thousand Nine Hundred Forty Six Only) for 946936 & Rs.99,294/- (Rupees Ninety Nine Thousand Two Hundred Ninety Four Only) for 947457	05-Sep-2022	18-Nov-2022
Mr. Subhash Chandra Kesarwani, Mrs. Meena Kesarwani (Prospect No. 1028549)	All that piece and parcel of: Plot No-310, 3rd Floor, admeasuring Area 301 Sq. Ft., Block-H, Sector-4, Rohini, North West Delhi, Delhi, India, 110085	Rs.10,56,955/- (Rupees Ten Lakh Fifty Six Thousand Nine Hundred Fifty Five Only)	07-Sep-2022	17-Nov-2022
Mr. Kishore Chaitanya Raghavir Builder And Constructions Mrs. Renu Basist (Prospect No 966258 & 944964 & 966258)	1. All that piece and parcel of: Plot No-2799, admeasuring 900 Sq. Ft., out of Kharsa No. 562, Khanpur Village, Tehsil Mehrauli, New Delhi-110062 2. All that piece and parcel of: Flat No. F-29A, area measuring 900 Sq. Ft. Out of Kharsa No.404, situated at Block-F, Khanpur Extn., New Delhi, India, 110062	Rs.22,87,554/- (Rupees Twenty Two Lakh Eighty Seven Thousand Five Hundred Fifty Four Only) for 944672 & Rs.83,527/- (Rupees Eighty Three Thousand Five Hundred Twenty Seven Only) for 944684 & Rs.67,69,835/- (Rupees Sixty Seven Lakh Sixty Nine Thousand Eight Hundred Thirty Five Only) for 944675	05-SEP-2022	18-Nov-2022
Mr. Vijay Arora Mr. Dharmender Mrs. Shresh Kanta Arora (Prospect No 900776, 902399 and 944767)	All that piece and parcel of Property Bearing: E-935 Area Ad measuring 100 Sq.Yards, Kh. No.-224, Block-E, Village Saboli, East Gokul Pur, Harijan Basti, Meer Nagar, Nand Nagar, Delhi, 110094, New Delhi, India	000776 is Rs.25,33,067/- (Rupees Twenty Five Lakh Thirty Three Thousand Sixty Seven Only) and 902399 is Rs.16,03,640/- (Rupees Sixteen Lakh Three Thousand Six Hundred Forty Only) and 944767 is Rs.17,42,422/- (Rupees Seventeen Lakh Twelve Thousand Four Hundred Twenty Two Only)	06-Sep-2022	18-Nov-2022
Mr. Renu Mr. Satish Kumar (Prospect No 873258 & 884597)	All that piece and parcel of : House No-21, Ground Floor And 1st Floor With Terrace, admeasuring 675 Sq. Ft., Kh. No-9 Aliganj Village Kotla, Mubarakpur, Delhi, India-110003	Rs.27,63,618/- (Rupees Twenty Seven Lakh Eighty Three Thousand Six Hundred Eighteen Only) for 873258 & Rs.3,64,520/- (Rupees Three Lakh Sixty Four Hundred Twenty Five Hundred Twenty Only) for 884597	07-Sep-2022	18-Nov-2022

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entry at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office, Plot No. 3030/AE, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi A/C & A-10, 2nd floor, Noida Sector 16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301 OR Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 38, Udyog Vihar, Phase IV, Gurgaon, Haryana.

Place: Delhi, Date: 22-11-2022 **Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd**

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Haryana, Bays No. 55-58, Prayatan Bhawan, Sector-2, Panchkula, Haryana, vide its EC Identification No. EC22B000HR133378 dt 17/11/2022 has accorded Environmental Clearance for the "Expansion of Proposed Commercial Building Atrium Place" over a land area measuring 11.76 acres in Vanija Nikunj, Udyog Vihar, Phase V, District Gurugram, Haryana being developed by M/s Aadarshini Real Estate Developers Private Limited (currently known as M/s Atrium Place Developers Private Limited) in accordance with the provisions of the EIA Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986. General Public is further informed that details of the aforesaid Environmental Clearance Letter are displayed at website of MoEF&CC / SEIAA, Haryana (<http://www.environmentclearance.nic.in>). This public notice is issued in compliance to the Miscellaneous Condition No. X (i) of the above mentioned Environment Clearance Letter.

Place: Gurugram **Date: 18/11/2022**

Biju V.M (Authorized Signatory)
For Aadarshini Real Estate Developers Private Ltd.
(Currently known as Atrium Place Developers Private Limited),
Gurugram,
Haryana - 122002

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

LCRD New Delhi Division : U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar, Patel Road, / New Delhi-110008 Ph. No.011-40733980 / 981 / 982 Email: nldrcld@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC003068 Website: www.federalbank.co.in

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as Act) and in exercise of powers conferred under section 13(12) of the said Act read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as Rules) issued a demand notice dated 16.08.2022, calling upon the Borrower: **1. Mr. Yoginder Sain S/o Mr. Laxman Sain, carrying on business in the name and style of / M/s Shri Ganesh Car Accessories at 31 A/38, West Rajiv Nagar, Gali No. 1, Gurugram-122001 2. Mrs. Vijesh Sain w/o Mr. Laxman Sain, 3. Mr. Laxman Sain, 1, 2 & 3 residing at House No 205, Gali No. 3, West Rajiv Nagar, Farukhnagar, Gurgaon, Haryana, to repay the amount mentioned in the notice being ₹ 6,61,172/- (Rupees Six Lakh Sixty One Thousand One Hundred Seventy Two Only) is due from you jointly and severally as on 16.08.2022 under your Term Loan (PMEGP) 13556800000214 and a sum of ₹ 2,26,465/98- (Rupees Two Lakh Twenty Six Thousand Four Hundred Sixty Five and Paise Ninety Eight Only) is due from you jointly and severally as on 16.08.2022 under your GECL Term Loan 135569000002581 is a sum totalling ₹ 8,87,637/98- (Rupees Eight Lakh Eighty Seven Thousand Six Hundred Thirty Seven and Paise Ninety Eight Only) is due from you jointly and severally as on 16.08.2022 under your loan with Gurugram Branch within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules on this 18th day of November 2022. The borrower's attention is invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties). The borrower in particular and public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Federal Bank Ltd. for an amount ₹ 6,84,577/- (Rupees Six Lakh Eighty Four Thousand Five Hundred Seventy Seven Only) is due from you jointly and severally as on 18.11.2022 under your Term Loan(PMEGP) 13556800000214 and a sum of ₹ 2,32,364/98- (Rupees Two Lakh Thirty Two Thousand Three Hundred Sixty Four and Paise Ninety Eight Only) is due from you jointly and severally as on 18.11.2022 under your GECL Term Loan(135569000002581 is a sum totalling ₹ 9,16,941/98- (Rupees Nine Lakh Sixteen Thousand Nine Hundred Forty One and Paise Ninety Eight Only) is due from you jointly and severally as on 18.11.2022 under your loan with Gurugram branch of the Bank.**

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTIES
All that piece and parcel of residential vacant plot measuring 134.40 sq.yards situated at part of Kharsa No.439 & 441 Situated Near Suraj School, Tapukeda-Bureda Road, Village Bureda Tehsil Tijara, District Alwar, Rajasthan together with all buildings existing and/or to be constructed bounded on the East by Land of Mahabir, West by Land of others, North by Land of Mahabir and South by Road.

Place: NEW DELHI **Authorised Officer under SARFAESI Act.**
Date: 18.11.2022 **(The Federal Bank Ltd)**

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered & Corporate Office : 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Circle Office : CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LTD. : 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110060

APPENDIX- IV-A (See proviso to rule 8 (6) and 9(1))
Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Housing Finance Limited (the "Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

SR. NO.	1. BORROWER(S) NAME 2. OUTSTANDING AMOUNT	DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY	1. DATE & TIME OF E-AUCTION 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD	1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY 3. INCREMENTAL VALUE
1.	1. Mr. Sachin Soni ("Borrower") 2. Mrs. Shefalini Soni (Co-borrower) LOAN ACCOUNT NO. LNHLPDR000015109 Rupees 18.04,173/- (Rupees Eighteen lacs Four Thousand One Hundred Seventy Three Only) as on 21.11.2022 along with applicable future interest.	All that piece and parcel of Second Floor Back Side (RHS Portion) without Roof/Terrace Rights of Built-Up Property Bearing No. C-126 and C-126A (Old No. 151), Area admeasuring 50 Sq. Yds., i.e., 41.81 Sq. Mts., Out of total area admeasuring 200 Sq. Yds., out of Kharsa No. 117/9, Gali No. 35, Village Palam, Colony known as Mahavir Enclave, Block C, Part - III, West Delhi, New Delhi - 110077	1. E-AUCTION DATE: 27.12.2022 (Between 3:00 P.M. to 4:00 P.M.) 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: 26.12.2022 3. DATE OF INSPECTION: 24.12.2022	RESERVE PRICE: Rs. 16,05,000/- Rupees Sixteen Lacs Five Thousand Only). EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 1,60,500/- (Rupees One Lac Sixty Thousand Five Hundred Only) INCREMENTAL VALUE: Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Housing Finance Limited Secured Creditor's website.

TERMS & CONDITIONS OF E-AUCTION SALE:-

- The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.
- Particulars of the property / assets (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extent & dimensions may differ.
- E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries (due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bids).
- Auction bidding shall only be through "online electronic mode" through the website <https://sarfaesi.auctiontiger.net> or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider MIS eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad which shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.
- The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor / service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash, own, power failure etc.
- For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider MIS e-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 079-66136880/68136837). Mr. Ramprasad Sharma Mob. 800-002-3297 79-6120 0959. Email: ramprasad.auctiontiger.net.
- For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at <https://sarfaesi.auctiontiger.net> in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider.
- For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Housing Finance Limited" on or before 26-Dec-2022.
- The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (formal available on <https://sarfaesi.auctiontiger.net>) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Housing Finance Limited Regional Office Plot no. 9B, 2nd floor, Pusa Road, New Delhi 110 060 and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings.
- The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) within 24 hours of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Housing Finance Limited.
- In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.
- At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.
- The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) (if applicable) and submit TDS certificate to the Authorised Officer and the deposit the entire amount of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the Authorised Officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, failing which the earnest deposit will be forfeited.
- Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.
- Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.
- Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.
- The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.
- The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable.
- All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.
- The movable articles lying in the property is not part of this sale.
- For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Housing Finance Limited: Ms. Swati Singh Mo. No. 7400445137/9235669225 and for other queries Ms. Kaipana Chetanwala-7738039346.
- This publication is also 30 (Thirty) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) and 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place.

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Housing Finance Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Place: DELHI/NCR **Date : 22-Nov-2022** **Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Housing Finance Limited**

"FORM NO INC-26"
(Pursuant to rule 3 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government, Northern Region, New Delhi.

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 3(5) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND

In the matter of **XALT ANALYTICS PRIVATE LIMITED** (CIN : U73200DL2017PTC327679) having its registered office at : E-2/9, Ground Floor Vasant Vihar New Delhi South West Delhi DL 110057 IN.

.....Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the company in terms of the special resolution passed at the 01st Extra-Ordinary General Meeting held on Tuesday, 27th September, 2022 to enable the company to change its Registered office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Madhya Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA portal (www.mca.gov.in) by filing inspection complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 607, Rohit House 3, Tolstoy Marg, Delhi-110001

XALT ANALYTICS PRIVATE LIMITED
(CIN : U73200DL2017PTC327679)
E-2/9, GROUND FLOOR VASANT VIHAR NEW DELHI SOUTH WEST DELHI DL 110057 IN

For and on behalf of
XALT ANALYTICS PRIVATE LIMITED
Sd/-
Nitin Agarwal
Director
Place : Delhi (DIN : 06819800)

Form No. INC-25A
(Pursuant to Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT NORTHERN REGION

IN THE MATTER OF SECOND PROVISOR OF SUB SECTION

ऑटो यात्रियों को लूटने वाले जहूर खुरानी गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज़ ►►नई दिल्ली

उत्तरी जिले की कश्मीरी गेट पुलिस ने जहूर खुरानी गैंग के तीन बदमाशों को अरेस्ट किया है। यह गैंग ऑटो से यात्रा करने वाले लोगों को खासतौर पर निशाना बनाता था। उन्हें बहाने से खाने की चीज में नशीला पदार्थ खिलाकर सामान लेकर चंपत हो जाता था। पुलिस करीब 40



सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद इन तक पहुंची।

नशे की गोलियां बरामद

पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया जाने वाला ऑटो, चार हजार रुपए नगदी और नशे की गोलियां भी बरामद हो गई हैं। पुलिस के अनुसार 16 नवंबर को हरिद्वार निवासी मोहम्मद अली अहमद

(26) ने ऑटो में मोबाइल और 60 हजार रुपए चोरी होने की शिकायत कश्मीरी गेट थाने में दी थी। उसने बताया था कि वह 9 नवंबर की सुबह करीब साढ़े 11 बजे कश्मीरी गेट पहुंचा था। उसने शांखी नगर जाने के लिए ऑटो लिया। रास्ते में उसे आँटो में सवार एक यात्री ने कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। इसे पीने के बाद वह बेहोश हो गया। बाद में होश

आया तो पता चला कि मोबाइल और रुपये गायब हैं। ऑटो सवार उसे नंद नगरी इलाके में छोड़ गए थे। इसके बाद वह पब्लिक को मदद से नोएडा पहुंचकर अस्पताल में भर्ती रहा था। कोतवाली सब डिवीजन के एसीपी विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने ऑटो को नंबर के आधार पर ट्रेस कर लिया। ऑटो मालिक ईस्ट बाबरपुर निवासी आशु

जैन ने बताया कि ऑटो ओल्ड मुस्तफाबाद निवासी फिरोज चलाता है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने सहयोगियों के साथ लगातार ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार पुलिस ने फिरोज को 20 नवंबर को बाबरपुर इलाके से ऑटो के साथ दबोच लिया। इसने अन्य तीन साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना कबूला। इसकी

निशानदेही पर पुलिस ने मोहम्मद नसीम, मोहम्मद नईम को जाफराबाद इलाके से पकड़ लिया। मोहम्मद नसीम के पास से नशे की आठ गोलियां और चार हजार रुपए बरामद हुये। पुलिस को अब इस वारदात में चौथे आरोपी की तलाश है। आरोपी हजरत निजामुद्दीन इलाके में भी इसी तरह से कई वारदात को अंजाम दे चुके थे।

ख़बर संक्षेप

एक सप्ताह में डेंगू के 283 मामले आए सामने

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 283 डेंगू के मामले सामने आए हैं। वहीं इस साल अब तक डेंगू के 3044 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं इस साल अब तक मलेरिया के 219 और चिकनगुनिया के 44 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक सप्ताह में मलेरिया के 7 और चिकनगुनिया का 1 मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में डेंगू के 1,200 से अधिक, 26 अक्टूबर तक 1,238 मामले दर्ज किए गए, जो डेंगू के कुल मामलों के आधे से भी अधिक हैं। 19 अक्टूबर तक डेंगू संक्रमण की संख्या 1,876 थी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में डेंगू के कुल मामलों की संख्या 26 अक्टूबर तक 2,175 हो गई।

एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी के साथ महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली।। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ ने जांच के दौरान एक महिला के ट्रॉली बैग से 19600 यूएस डॉलर बरामद किये। भारतीय रुपये में यह लगभग 16 लाख के आसपास है। महिला दिल्ली से महान एयर फ्लाईट के जरिये तेहरान जा रही थी। आगे की जांच के लिये रकम और महिला को कस्टम विभाग के हवाले किया गया है। सीआईएसएफ के पीआरओ अपूर्व पांडेय ने बताया कि 18 नवंबर को रात करीब नौ बजे आईजीआई के टर्मिनल 3 पर एक महिला के ट्रॉली बैग को जैसे ही मशीन में डालकर चेक कर किया गया तो उसमें संदिग्ध तस्वीर दिखाई दी। बाद में महिला के बैग की बारीकी से जांच की गई तो उसमें से छिपी हुई विदेशी करेंसी बरामद हुई। करेंसी के संबंध में महिला ना ही कोई कागजात दिखा पाई और ना ही संतोषजनक जवाब दे पाई। बाद में उन्हें कस्टम विभाग के हवाले कर दिया गया।

9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरा पारा

नई दिल्ली।। इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह सोमवार को 9 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरे पारे के रूप में दर्ज हुई। प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली (आईएमडी) के अनुसार न्यूनतम पारा गिरकर 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज हुई। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिनभर मौसम खुला रहा, हवाएं भी चली, लेकिन सूरज की रोशनी सीधे जमीन तक पहुंचने से मौसम ठीक बना रहा।

गंगा राम अस्पताल में सर्जिकल चमत्कार महिला पूरी तरह पुरुष में होना चाहती थी परिवर्तित, लिंग किया प्रत्यारोपित

हरिभूमि न्यूज़ ►►नई दिल्ली

सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में उत्तर प्रदेश से 34 वर्षीय महिला 2 महीने पहले इलाज के लिए पहुंची, जो पूरी तरह से एक पुरुष में परिवर्तित होना चाहती थी।

पिछले 6 वर्षों में महिला 2017 में ऑपरेशन द्वारा अपने दोनों स्तन हटवाये और 2019 में गर्भाशय, अंडाशय और योनि हटवा चुकी थी। वह 2016 से पुरुष हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर थी। सर गंगा राम अस्पताल में पहुंचने के समय, महिला में सभी पुरुष लक्षण थे जैसे - दाढ़ी, छाती पर बाल, पुरुषों वाली आवाज और पुरुष व्यवहार आदि थे। डॉ. भीम सिंह नंदा, सीनियर कंसलटेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली के अनुसार, “हमने टिश्यू ट्रांसफर की अत्याधुनिक माइक्रो-सर्जिकल तकनीक द्वारा पूर्ण पुरुष परिवर्तन

- हमने टिश्यू ट्रांसफर की अत्याधुनिक माइक्रो-सर्जिकल तकनीक द्वारा पूर्ण पुरुष परिवर्तन के लिए शिशन (पुरुष लिंग) को महिला के हाथ पर पुनर्निर्माण करने का लिंग फैसला : डॉ. नंदा

के लिए शिशन (पुरुष लिंग) को महिला के हाथ पर पुनर्निर्माण करने का फैसला किया। सभी तकनीकों में से हमने शिशन (लिंग) पुनर्निर्माण के लिए हाथ और कलाई (फोरआर्म) को डोनेर के रूप में चुना। यह एक चुनौतीपूर्ण सर्जरी थी क्योंकि शिशन (लिंग) को बांह की कलाई पर धमनियों और सभी महत्वपूर्ण नसों को बचाया। अगला कदम पुनर्निर्मित लिंग को मरीज के गुप्तांग की जगह में प्रत्यारोपित करना था। डॉ. नंदा ने आगे कहा,यह एक सफल सर्जरी थी जिसमें कम से कम खून की कमी के साथ लगभग 8 घंटे लगे। सर्जरी के 6 हफ्ते बाद मरीज पूरी तरह से पुरुष है।

सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

छावला गैंगरेप: दोषियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देगी दिल्ली सरकार



हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत व हाईकोर्ट के फैसले को कर दिया था रद्द

आरोपियों ने सजा के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने सात नवंबर 2022 के अपने फैसले में निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। आरोपियों की बरी करने के फैसले की तीखी आलोचना हुई थी। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा था कि इससे अभियुक्तों का हौसला बढ़ेगा। तीन आरोपियों को बरी करते हुए सुप्रीम

कोर्ट ने कहा था कि कानून अदालतों को किसी आरोपी को केवल संदेह के आधार पर दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। शीर्ष अदालत ने यह दिम्पणी करते हुए यह भी कहा था कि अगर जजन् अपराध में शामिल अभियुक्तों को सजा नहीं मिलती है या उन्हें बरी कर दिया जाता है तो आम स्तर पर समाज और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार के लिए एक प्रकार की पीड़ा और हताशा हो सकती है। पीठ ने कहा था कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ डीएनए प्रोफाइलिंग और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) सहित अन्य मामलों में ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा। उसने

गुरुग्राम में काम करती थी युवती

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि युवती उत्तराखंड की रहने वाली थी और गुरुग्राम के साहबूर सिटी में काम करती थी। वह कार्यस्थल से लौट रही थी और अपने घर के पास पहुंची ही थी कि तीन लोगों ने एक कार में उसका अपहरण कर लिया। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जब युवती घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया था कि इसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में युवती का क्षत-विक्षत शव सड़ी-गली हालत में बरामद हुआ था। पुलिस को युवती के शव पर जखम के कई निशान मिले थे। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आगे की जांच और शव के पोस्टमॉर्टम से पता चला कि युवती पर कार के औजारों, कांव की बोतलों, धातु की वस्तुओं और अन्य हथियारों से हमला किया गया था और उसके साथ बलात्कार भी हुआ था। पुलिस ने अपराध में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया था और कहा था कि इनमें से एक आरोपी ने युवती द्वारा उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद कथित तौर पर उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया था।

कहा था कि निचली अदालत ने भी मामले में एक निर्णय अपायकर के रूप में काम किया।

पत्नी की गला घोटकर हत्या खुदकुशी का रंग देने की हुई कोशिश

हरिभूमि न्यूज़ ►►नई दिल्ली

हर्ष विहार इलाके में एक शख्स ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। महिला का नाम अर्चना (32) था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसे सुसाइड का रूप देने की कोशिश भी की थी। लेकिन उसका भेद खुलते देर नहीं लगी और आरोपी योगेश कुमार (35) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह अशोक नगर इलाके में साइबर कैफे चलाता था।

उसका कहना है कि पत्नी ने नौकरी लगवाने के बहाने कई लोगों से पैसे ले रखे थे। अब वह लोग उसे परेशान कर रहे थे। इस वजह से उसने गुस्से में पत्नी की जान ली। हालांकि पुलिस उसके बयानों का वैरिफाई कर रही है। पुलिस के अनुसार अर्चना दुर्गा मंदिर वाली गली, सुशीला गार्डन में रहती थी। परिवार में पति के अलावा जुड़वा बेटा व बेटी है। अर्चना ने प्लेसमेंट



एजेंसी खोली हुई थी। बीती रात आरोपी ने पत्नी के सुसाइड कर लेने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंच पुलिस ने घटनास्थल के हालात देखे और फिर योगेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि चुन्नी की मदद से पत्नी का गला घोंटा था। इसके बाद उसने पंखे की दो पंखड़ियां मोड़ दी थी जिससे ऐसा लगे कि अर्चना ने फांसी लगाई थी। इनकी 2015 में शादी हुई थी। करीब पौने तीन महीने पहले ही अर्चना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था।

झारका-ढांसा बस स्टैंड खंड एर गति परीक्षा के चलते एक घंटे बंद रहेगी मेट्रो

नई दिल्ली।। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के लिए सूचना जारी करते हुए कहा है कि मेट्रो गति व अन्य संचालन गतिविधियों को लेकर वे लाइन झारका-ढांसा बस स्टैंड सेवशन पर निरीक्षण किया जाएगा। इस बारे में डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक औद्योगिक संचार अनुज दयाल ने बताया कि जल्दगी काफ़ी के चलते मंगलवार को वे लाइन झारका-ढांसा बस स्टैंड सेवशन पर दोपहर 12:30 बजे से 01:30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इस दौरान यात्रियों को मेट्रो सेवा त्ती बचाए अन्य विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारका-ढांसा बस स्टैंड सेवशन (वे लाइन) पर ट्रेन गति बढ़ाने और ट्रेन संचालन गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए गति परीक्षण किया जाएगा। जिसमें झारका और ढांसा बस स्टैंड के बीच खंड पर दोपहर को एक घंटे मेट्रो परिवानन बंद रहेगा। इसलिध यात्रियों से अनुरोध है कि मंगलवार को उक्त खंड पर मेट्रो यात्रा सूचना को ध्यान में रखकर ही करें।

एक दिसंबर से शुरू होगी नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया

एजेंसी/हरिभूमि न्यूज़ ►►नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में दाखिला प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है जबकि चयनित अभ्यर्थियों की पहली सूची 20 जनवरी को घोषित की जाएगी।

शिक्षा निदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सत्र 2023-24 के लिए दिल्ली के निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में खुली सीटों के लिए प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी और पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। उसमें कहा गया है कि दाखिले के लिए चयनित किए गए बच्चों की पहली सूची 20 जनवरी को जारी की जाएगी। इसी के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी।

डीयू: एकेडमिक काउंसिल की बैठक आज

नई दिल्ली।। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष व दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्युत परिषद के पूर्व सदस्य डॉ. हंसराज सुजन ने बताया है कि मंगलवार 22 नवम्बर को ही रही एकेडमिक काउंसिल की बैठक काफी हजामेदार होने की संभावना है। इस बैठक में छात्र-शिक्षक अनुपात को लेकर व एडहॉक पढ़े को गेस्ट टीचर्स ने तब्द्वील किए जाने पर भी बहस की संभावना है।

वहीं दूसरी सूची छह फरवरी को जारी की जाएगी। सभी स्कूल दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों के साथ प्रवेश स्तर की सभी कक्षाओं का विवरण 16 दिसंबर तक घोषित करेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल 28 नवंबर तक प्रवेश के लिए अपने मानदंड जारी करेंगे।

एक आरोपी ने स्पेशल सेल की टीम पर की फायरिंग गोगी व लॉरेंस गैंग के शूटर समेत तीन अरेस्ट

स्पेशल सेल ने जितेन्द्र उर्फ गोगी व लॉरेंस बिस्नोई गैंग के शार्प शूटर समेत तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शूटर को गिरफ्तारी पर मुंडका डबल मर्डर केस में 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और चार कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी हत्या, हत्या की कोशिश और लूट जैसी वारदातों में शामिल रहा है। इसके अलावा गिरफ्तार दो नये नये बदमाश बने थे।

डीसीपी राजीव रंजन सिंह के अनुसार पकड़े गए शूटर का नाम सोनीपत निवासी राजेश उर्फ सेठी उर्फ फौजी (41) है। वह दो दर्जन से ज्यादा अपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। 18 नवंबर को राजेश के बारे में मिले एक इनपुट के बाद शनि मंदिर जीटीके रोड, अलीपुर में रात करीब आठ बजे ट्रेप लगाया गया। रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर राजेश को ट्रेस किया गया। उसने सरेंडर करने की हिदायत दी गई। खुद को फंसते देख उसने पिस्टल निकाल पुलिस पर तीन से चार राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली हेड कंस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, जिसकी वजह से वह बच गए। आखिर में पुलिस टीम ने आरोपी को काबू कर लिया। इसके खिलाफ स्पेशल सेल थाने



में आम्स एकट, सरकारी काम में बाधा डालने और हत्या की कोशिश से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी से हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने 20 नवंबर को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जीटी रोड दिल्ली में ट्रेप लगाकर राजबीर सिंह उर्फ गुड्डू और संजय सिंह को पकड़ा। ये दोनों मूलरूप से आगरा यूपी के रहने वाले हैं। इनके पास से भी पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए। राजबीर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से राजेश के साथ जुड़ा था। जहां उसने संजय उर्फ टीबी नाम के शख्स की हत्या को अंजाम दिया। इस वारदात का अंजाम देने के पीछे उसे कनाडा में सैटल कराने का ललाच दिया गया था। वहीं आरोपी संजय सिंह भी संजय उर्फ टीबी की हत्या में शामिल था, इसे भी कनाडा में सैटल करने का लालच दिया गया था।

तिहाड़ वीडियो लीक

जैन की याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली।। दिल्ली की एक अदालत जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें उनकी जेल की कोठरी का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में कथित रूप से लीक करने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश विकास दुलन ने शनिवार को जांव घुसेजी को निदेश दिया था कि वह जैन की याचिका पर अपना जवाब दायर करने के लिए आठ नवंबर को शायदपन देने के बावजूद तिहाड़ जेल के अंदर से सीसीटीवी फुटेज को लीक किया। आप की शनिवार को एक आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि वीडियो में जैन को अपनी जेल की कोठरी में कथित रूप से मालिश कराते और आलतुकों से मिलते दिखाया गया है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने जैन को बर्खास्त करने और जेल नियमों के उल्लंघन को लेकर घुसेरियों से जांच करने की मांग की है। ईडी ने भी इसके पहले जमानत पर सुनवाई के दौरान जैन पर आरोप लगाया था कि वे जेल के अंदर विशेष सुविधा हासिल कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने ईडी और जेल के कानूनी दल को इस संबंध में हलफनामे की किसी सामग्री और वीडियो को लीक नहीं करने का आदेश दिया था और दोनों पक्षों से इस बाबत शपथ पत्र भी लिया था।

<div><div> </div></div> <div>Sintec <small>Capital Limited</small> <small>Singapore Branch, Singapore</small></div>
<div>इंटेक कैपिटल लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC057410</div>
पंजी. कार्यालय : 708, मंजूषा बिल्डिंग, 57 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 T. : +91-11-48522200/300; F. : +91-1146522333 Website : www.inteccapital.com
<div>डाक मतदान सूचना और ई-वोटिंग जानकारी</div>
कम्पनी (प्रवेश एवं प्रशासन) नियमों, 2014 (दि “प्रवेश नियमों”) संशोधित अनुसार के नियमों 22 और 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (दि “एक्ट”) की धारा 110 और 108 के प्राधान्य, सामान्य बैठकों पर संचालनार्थी मान्य-2 (दि “प्रसार-2”), भारतीय प्रतियोगिता एवं विनियम बोर्ड के नियमन 44 (लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एवं चोषणा आवश्यकताएं) नियमों 2015 (दि “सेबी लिस्टिंग रूलेस”) समेत कोई वैधानिक संशोधन (1), स्पष्टीकरण (1), रूपायनन(1) अथवा तत्कालीन लागू उक्त पुनः क्रियान्वयन(1), कोविड-19 महामारी के महेंजर कम्पनी मामलों का संवालय द्वारा जारी सामान्य सक्तुलर नं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून 2021, 20/2021 दिनांक 08 दिसम्बर 2021 और 3/2022 दिनांक 05 मई 2022 (दि “एमसीए सक्तुलर”) के तहत सामान्य बैठक आयोजित करने हेतु कम्पनी मामलों का संवालय (दि “एमसीए”), भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिना-निर्देशों और केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों (ई-वोटिंग”) के माध्यम से मतदान द्वारा डाक मतदान के माध्यम से इंटेक कैपिटल लिमिटेड (दि “कम्पनी”) के सदस्यों का अनुमोदन लेने हेतु कोई अन्य लागू कानूनों और नियमनों के अनुसार एतद द्वारा सूचना दी जाती है।
डाक मतदान सूचना कम्पनी को वेबसाइट http://www.inteccapital.com और सेंट्रल डिजिटिजरी सर्विसन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
एमसीए और सेबी सक्तुलर के अनुसार, सूचना कम्पनी के केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते डिजिटिजरी पॉर्टफॉलियो (एस/कम्पनी/ रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एंटर “आरटी”) अर्थात वीटल फरमेशनल सेंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के पास संयोजित हैं। सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 21 नवम्बर 2022 को पूर्ण कर लिया गया है। अन्य विधियों के साथ-साथ दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका सहीत करने हेतु सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.inteccapital.com पर, स्टर्क एक्सचेंजेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिजिटिजरी सर्विसन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (प्रवेश एवं प्रशासन) नियमों, 2014 (“कल्ल”) सम्य-समय पर संशोधित अनुसार के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्राधान्यों, लिस्टिंग नियमनों के नियमन 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी एएसए-2 के अनुसार में, सम्यहित किये जाने वाले प्रत्येक विबनेस के सम्म्यन में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना मतदान करने के लिये इसके सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये www.evotingindia.com पर सेंट्रल डिजिटिजरी सर्विसन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा प्रदान करने के लिये कम्पनी प्रसन है। नियमों के साथ पठित अधिनियम, एएसए-2 और एमसीए सक्तुलर के अनुसार में विवरण निम्नानुसार है : (ए) 18 नवम्बर, 2022 (“कट ऑफ तिथि”) के अनुसार या तो भौतिक रूप में अथवा डिजैटिरियलाइज्ड रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य केवल दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये अपने अधिकार का उपयोग करने के लिये पात्र होंगे। कोई व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, इस सूचना को केवल जानकारी के प्रयोजन हेतु माने। (बी) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका : सदस्यों को ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से सूचना में विनिर्दिष्टनुसार विबनेस पर दूरस्थ रूप से अपने मतदान करने के लिये एक अवसर प्राप्त होगा। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगइन प्रत्यायक ई-मेल के माध्यम से सदस्यों को उपलब्ध कराये जाएंगे। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु निर्युत प्रक्रिया सूचना में प्रदान की गई है। विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाए गए हैं।
(सी) दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि सुधवार, 23 नवम्बर 2022 को पूर्वा. 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारम्भ होगी और बुधवारसुधवार, 22 दिसम्बर 2022 को प्रा. 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके प्रस्ताव वोटिंग हेतु दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा अयोग्य कर दिया जाएगा और मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(डी) एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को तदोपरांत इसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ई) कट ऑफ तिथि के अनुसार कम्पनी के सभी सदस्य (वे सदस्य जो कम्पनी / आरटीए / डिजिटिजरीज के पास अपने ई-मेल पते धनीकरण नहीं करवाने को वजह से सूचना प्राप्त नहीं कर चुके हैं, समेत) सूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तावित विबनेस के सम्म्यन में मतदान करने के हकदार होंगे।
(एफ) विषय और पारदर्शी ड्रा से दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतदान आयोजित करने हेतु संवीक्षकर्ता के रूप में श्री प्रियंक कुक्कुरा (आईएसएसआई सदस्यता सोओपी-19465, एग्रेसिबल नं. १40585) को नियुक्त किया गया है।
(जी) डाक मतदान का परिणाम शनिवार, 24 दिसम्बर 2022 को या इससे पूर्व घोषित किया जाएगा। उक्त परिणामों सहित सीडीआरकर्ता की रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.inteccapital.com पर अपलोड की जाएगी और स्टर्क एक्सचेंज के www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिजिटिरी सर्विसन (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी संचालित की जाएगी। कम्पनी डाक मतदान के परिणाम कम्पनी के मनीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित करोगे।
(एच) यदि आपके पास ई-वोटिंग के सम्म्यन में कोई प्रश्न अथवा भुद्दे हैं और आप बारम्बार भुद्दे जाने वाले प्रश्न (“फ़रकस्पून्”) और हेल्प सेक्शन के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मेनुअल देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को एक ई-मेल लिख सकते हैं अथवा श्री निधिन इंदर (022-23058738) अथवा श्री महबूब ख़ान्नी (022-23058543) अथवा श्री राकेश दलवी (022-23058542) के साथ कर सकते हैं।
<div><div> </div></div> <div>चाई के आदेशानुसार कृने इंटेक कैपिटल लिमिटेड हस्ता-/- संजीव गोयल प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00028702</div>
दिनांक : 21 नवम्बर 2022 स्थान : नई दिल्ली